

FEDDERS ELECTRIC AND ENGINEERING LTD.

(Formerly Fedders Lloyd Corporation Ltd.) C-15 RDC, Raj Nagar, Ghaziabad-201001

Uttar Pradesh (INDIA) Tel.: 91-9810266747

CIN: L29299UP1957PLC021118

November 14, 2024

Scrip Code: 500139

To,

BSE Limited

Department of Corporate Services PhirozeJeejeebhoy Towers, Dalal Street Mumbai-400 001 **NSE Limited**

Department of Corporate Services Exchange Plaza, Bandra, Kurla Complex, Bandra(West), Mumbai-400 051 Scrip Code: FEDDERELEC

ISIN: INE249C01011 - FEDDERS ELECTRIC AND ENGINEERING LIMITED

<u>Sub: Intimation under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)</u>
<u>Regulations, 2015</u>

Dear Sir,

In pursuant to Regulation 47 (1) (b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Please find enclosed copies of Unaudited Financial Results (Standalone) of the Company for the Second quarter and Half year ended September 30th, 2024 published in newspaper viz. The Pioneer (English Newspaper) & Pioneer (Hindi Newspaper) on November 14, 2024.

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Fedders Electric and Engineering Limited

Sakshi Goel

Company Secretary & Compliance officer

Judge delays ruling on Trump's conviction

A judge on Tuesday postponed a decision on whether to undo President-elect Donald Trump's conviction in his hush money case as prosecutors consider how to proceed in light of last week's election and his lawyers argue for dismissal so he can run the coun-

The postponement comes at a dramatic and dynamic point in the case, which focused on how Trump accounted for payments to a porn actor before the 2016 election and produced a first-ever conviction of a former commander-in-Sentencing had been set for Nov

26. But prosecutors now say they're reassessing, and they appear open to the possibility that the proceedings can't go as planned.

"These are unprecedented circumstances," prosecutor Matthew Colangelo wrote in an email to the

Particulars

(before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)

(after Exceptional and / or Extraordinary items

[Comprising Profit for the period (after tax) and

Equity share capital (Face Value of Rs.10/- each)

Earnings Per Share (before extraordinary items)

are available on the Stock Exchanges website www.cse-india.com

Directors of the Company at their respective meetings held on 13th November, 2024

other Comprehensive Income (after tax)]

Total income from operations (net)

Net Profit for the period before Tax

Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period

(Face Value of ₹ 10/- each

(a) Basic (Rs.

Place: Delhi

(b) Diluted (Rs.)

Net Profit for the period

court. He said prosecutors need to consider how to balance the "competing interests" of the jury's verdict and the presidency.

Trump lawyer Emil Bove, meanwhile, argued the case must be thrown out altogether "to avoid unconstitutional impediments to President Trump's ability to gov-

The messages were part of an email chain released Tuesday, when New York Judge Juan M Merchan had been set to rule on Trump lawyers earlier request to toss his conviction for a different reason because of a US Supreme Court ruling this summer on presiden-

tial immunity. Instead, Merchan told Trump's lawyers he'd halt proceedings and delay the ruling until at least Nov 19 so that prosecutors can suggest a way forward. Both sides agreed to the one-week postponement. Trump campaign spokesperson

SANEH INDUSTRIAL INVESTMENTS LIMITED

Regd. Office: Delton House, 4801, Bharat Ram Road, 24, Daryaganj, New Delhi -110002 (India) CIN: L74899DL1980PLC060079

Phone No. 91-11-23273907, Website: https://saneh.in, E-mail: sanehltd@gmail.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024 (Rs. In Lakhs

ended 30.09.2024

(1.88)

(1.88

(1.88

276.82

24.00

(0.78)

(0.78)

1) The above is an extract of the detailed format of unaudited Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 o

The above results have been prepared in accordance with principle and procedures of Indian Accounting Standards(Ind AS) as notifie

the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / half yearly Financial R

under the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as specified under section 133 of the Companies Act, 2013 The above Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of

Half Year

30.09.2024

(3.13)

(3.13)

(3.13)

491.05

24.00

(1.30)

(1.30)

ended

30.09.2023

(0.28)

(0.28)

(0.28)

87.24

(0.11)

Jnaudited Unaudited

Steven Cheung heralded the delay. He said in a statement that the president-elect's win makes "abundantly clear that Americans want an immediate end to the weaponisation of our justice system, including this case, which should have never

been filed".

Prosecutors declined to comment A jury convicted Trump in May of falsifying business records related to a \$130,000 payment to porn actor Stormy Daniels in 2016. The payout was to buy her silence about claims that she had sex with

Trump says they didn't have sex, denies any wrongdoing and maintains the prosecution was a political tactic meant to harm his latest campaign. Trump is a Republican. Manhattan District Attorney Alvin Bragg, whose office brought the case, is a Democrat, as is Merchan. Just over a month after the verdict,

Consolidated

Half Year

4.01

1.828.64

24.00

(0.42)

(0.42)

30.09.2024 30.09.2024

Unaudited Unaudited

1.86

(2.20

1,043.47

24.00

(0.92)

(0.92)

Quarte

ended 30.09.2023

Jnaudited 4 4 1

2.51

2.51

2.95

337.55

24.00

1.23

1.23

(DIN:00035916)

the Supreme Court ruled that expresidents can't be prosecuted for actions they took in the course of running the country, and prosecutors can't cite those actions even to bolster a case centered on purely personal conduct.

Trump's lawyers cited that ruling to argue that the hush money jury got some evidence it shouldn't have, such as Trump's presidential financial disclosure form and testimony from some White House

Prosecutors disagreed and said the evidence in question was only "a sliver" of their case.

Trump's criminal conviction was a first for any ex-president. It left the 78-year-old facing the possibility of a fine, probation or up to four years in prison.

The case centered on how Trump accounted for reimbursing a personal attorney for the Daniels payment. The then-lawyer, Michael Cohen,

recouped it through a series of payments that Trump's company logged as legal expenses. Trump, by then in the White House, signed most of the checks himself. Prosecutors said the designation was meant to cloak the true purpose of the payments and help cover up a broader effort to keep voters from hearing unflattering claims about Trump during his first campaign

Trump said that Cohen was legitimately paid for legal services, and that Daniels' story was suppressed to avoid embarrassing Trump's family, not to influence the electorate.

Trump was a private citizen, campaigning for president, when Cohen paid Daniels in October 2016. Ĥe was president when Cohen was reimbursed, and Cohen testified that they discussed the repayment arrangement in the Oval Office.

SUPERIOR FINLEASE LIMITED

CIN: L74899DI 1994PI C061995

Regd. Off: NS-92, Khasra No-33/21, Ranaji Enclave, Najafgarh, Near Arjun Park Bus Stand New Delhi -110043; Email id: superiorfinlease@gmail.com; Website: www.superiorfinlease.com nent of Un-audited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2024

		Quarter ended			Half Yea	Year ended	
SI No.	Particulars	30-09-24	30-06-24	30-09-23	30-09-24	30-09-23	31-03-24
				Unaudited			Audited
1	Total Revenue from Operations	22.83	22.54	24.27	45.37	48.84	93.73
2	Profit / (loss) before exceptional items and						
	tax (III-IV)	13.73	3.25	-9.36	16.98	-15.59	8.57
3	Profit/(loss) before tax (V-VI)	13.73	3.25	-9.36	16.98	-15.59	8.57
4	Profit / (loss) for the period from continuing						
	operations (VII-VIII)	13.73	3.25	-9.36	16.98	-15.59	6.34
5	Total Comprehensive income for the				·		
	period (XIII + XV)	13.73	3.25	-9.36	16.98	-15.59	6.34
6	Paid up equity share capital						
	(Face value Rs. 1/- per share)	300.10	300.10	300.10	300.10	300.10	300.10
7	Reserve excluding Revaluation Reserves as						
	per balance sheet of previous accounting year	383.79	383.79	383.79	383.79	383.79	383.79
8	Earnings per equity share						
	(1) Basic (in Rupees)	0.05	0.01	-0.03	0.06	-0.05	0.02
	(2) Diluted (in Rupees)	0.05	0.01	-0.03	0.06	-0.05	0.02

Note: The above is an extract of the detailed formate of Quarterly ended Financial Results filed with the stock exchange under regulation 33of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly, ended Financial Results are available on the Stock Exchange Website i.e. www.msei.in and

Place : New Delhi

Rajneesh Kumar

Russia launches first missile attack on Kyiv in months as NKorean troops fight in Kursk

Russia attacked the Ukrainian capital Kyiv with a sophisticated combination of missiles and drones for the first time in 73 days on Wednesday, authorities reported, as the Pentagon said most of the North Korean troops sent to help Moscow's war effort are fighting to drive Ukraine's army off Russian soil in the Kursk border region. Air raid warnings blared for hours as Russia targeted eight regions of Ukraine, firing six ballistic and cruise missiles and 90 drones, the Ukrainian air force said. Air defences downed four missiles and 37 drones, and another 47 drones were stopped by electronic jamming, the statement said. The damage was being assessed.

The air assault came as most of the more than 10.000 North Korean troops sent by Pyongyang to help Moscow in the war are engaged in combat in Russia's Kursk border region, according to the Pentagon. A Ukrainian army incursion into Kursk three months ago has succeeded in holding a broad area of land and has embarrassed the Kremlin.

Russia's military has trained the North Korean soldiers in artillery, drone

skills and basic infantry operations, including trench clearing, Pentagon deputy spokesperson Vedant Patel told a briefing Tuesday. The cooperation faces challenges, according to the Pentagon, including how to achieve military interoperability and overcom-

ing the language barrier. Kyiv officials say Russia has deployed around 50,000 troops to Kursk in a bid

to dislodge the Ukrainians. Russia has in recent months been assembling forces for a counteroffensive in Kursk, according to the Institute for the Study of War think tank. though the timescale of the operation is not known.

Russia's plans in Kursk and Ukraine's efforts to hold back a Russian onslaught in the eastern Donetsk region coincide with political uncertainty over how a US administration under Donald Trump will change Washington's policy on the war. US military aid is vital for Ukraine, but Trump has signalled he doesn't want to keep giving tens of billions of dollars to Kyiv.

President Ioe Biden intends to bolster US military support to Ukraine in the final months of his administration, US Secretary of State Antony Blinken said on Wednesday.

China holds combat drills at disputed Scarborough Shoal

AP ■ BEIJING

hina held sea and air combat drills China neid sea and an comoa and will Wednesday at the disputed Scarborough Shoal, an area of reefs and rocks the Philippines also claims in the South China Sea

lines for the shoal including geographic coordinates. A nation's territorial waters and exclusive economic zone are typically defined as the distance from the baselines.

ried out by the theatre troops in accordance with the law," the People's Liberation Army's southern command said in a short statement.

"This is a patrol and guard activity car-

China seized the shoal, which lies west in the South China Sea were invalid but Beijing refuses to abide by it.

of the main Philippine island of Luzon, On Sunday, China published new basein 2012 and has since restricted access to Filipino fishermen there. A 2016 ruling by an international arbitration court found that most Chinese claims

PUBLIC NOTICE

RenServ Global Private Limited

(Formerly known as ReNew Services Private Limited)
CIN No.: U74999DL2019PTC348911 Regd. Office: 138, Ansal Chambers II, Bikaji Cama Place, Delhi-110066 Corporate Office: ReNew.hub, Commercial Block-1, Zone-6, Golf Course Road, DLF City Phase-V, Gurugram, 122009, Haryana, Phone – 0124-4896 670/ 80

Statement of Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30 September 2024

Particulars	Quarter ended 30 September 2024	Quarter ended 30 June 2024	Quarter ended 30 September 2023	Half Year ended 30 September 2024	Half Year ended 30 September 2023	Year ended 31 March 2024
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total Income from Operations	1,214	1,109	1,114	2,323	2,030	4,214
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,						
Exceptional and/or Extraordinary items)	9	(46)	277	(37)	222	140
Net Profit / (Loss) for the period before tax						
(after Exceptional and/or Extraordinary items#)	9	(46)	277	(37)	222	140
Net Profit / (Loss) for the period after tax						
(after Exceptional and/or Extraordinary items#)	16	(44)	278	(28)	222	189
Total Comprehensive Income for the period						
[Comprising Profit / (Loss) for the period						
(after tax) and Other Comprehensive						
Income (after tax)]	16	(44)	278	(28)	222	192
Paid up Equity Share Capital	0	0	0	0	0	0
Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(14)	(30)	46	136	46	16
Net worth**	136	(30)	46	136	46	16
Debt Equity Ratio *	2.63	2.29	0.47	2.63	0.47	2.39
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)						
(for continuing and discontinued operations)						
1. Basic : (in Rs.)	1,581.51	(4,426.09)	27,847.30	(2,844.58)	22,090.65	18,869.11
2. Diluted : (in INR)	1,581.51	(4,426.09)	27,847.30	(2,844.58)	22,090.65	18,869.1
Debenture Redemption Reserve *	104	104	17	104	-	104
Debt Service Coverage Ratio *	1.53	1.24	1.04	1.38	(1.80)	2.64
Interest Service Coverage Ratio *	1.53	1.24	6.57	1.39	3.49	2.64
Current ratio	1.30	1.29	1.07	1.30	1.07	2.18
Long Term Debt to Working Capital	1.02	1.03	2.00	1.02	2.00	1.03
Bad debts to Account receivable Ratio*	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Ni
Current Liability Ratio	0.75	0.76	0.87	0.75	0.87	0.45
Total Debts to Total Assets Ratio	0.57	0.57	0.12	0.57	0.12	0.59
Debtors Turnover Ratio*	0.36	0.26	0.38	0.53	0.70	1.24
Inventory Turnover Ratio*	0.58	0.62	0.83	1.22	1.67	3.18
Operating margin (%)	6%	9%	28%	7 %	15%	8%
Net profit margin (%)	1%	(4%)	25%	(1%)	11%	4 %

Ratios have been computed as follows:

- Earning per share (Basic and Diluted) = Profit after Tax / Weighted average number of equity shares Debt Equity Ratio = Debt (Amount due to Debenture Holders) / Equity (Equity share capital + share premium + quas

equity i.e. Short term borrowing) Interest Service Coverage Ratio = Profit before interest, prior period items, tax, extraordinary items and depreciation

/ (Total Interest Expense). Debt Service Coverage Ratio = (Net Profit after taxes + non-cash operating expenses + interest + Depreciation + tax expense) / (Total Interest Expense + Long Term Debt Principal repayments)

Current Ratio= Current Assets/ Current Liabilities

 Long Term Debt to Working Capital= Non- Current borrowing including current maturities of Non-current borrowings (Current Assets - Current Liabilities excluding current maturities of Non-Current borrowings) - Bad debts to Accounts Receivable ratio= Bad debts / Average Trade receivables and Average unbilled Revenue

Current Liability Ratio = Current Liabilities/ Total Liabilities - Total Debts to total Assets= Total outstanding debts/ Total Assets

- Debtors turnover= Revenue from operation/ Average trade receivables and Average unbilled Revenue

- Inventory Turnover= Revenue from operations/Average inventories

- Net Profit Margin (%) = Net profit after Tax/ Revenue from Operations

- Operating margin(%)= (Profit before tax + Finance costs - Other income)/ Revenue from operations

Asset Coverage Ratio = (Total Assets) / Debt (Amount due to Debenture Holders)

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the BSE Limited (BSE)

under regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of the quarterly financial results is available on the websites of the Stock Exchange and the Company - https://renew.com. For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been

made to the BSE and can be accessed on the URL https://www.bseindia.com/. The Company is in the business of operation and maintenance of wind and solar power plants. There is only one

segment (business and/or geographical) in accordance with the requirements of Ind AS - 108 "Operating Segments" The above financial results of the Company for the quarter and half year ended 30 September 2024 have been approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 13 November 2024. The statement has been prepared in accordance with recognition and measurement principles laid down in accordance

with the Indian Accounting Standard as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant rules issued thereunder and other recognized accounting practices and policies.

Care Ratings has assigned long term issuer rating and rating for the outstanding non-convertible debentures of the Company to "CARE A+ (CE)" with stable outlook.

Previous period figures have been re-grouped / re-classified wherever necessary, to conform to current period's classification

For and on behalf of the RenServ Global Private Limited (Formerly known as ReNew Services Private Limited) Place: Gurugram (Sd./-) Sanjay Jagadish Kulkarni Date: 13th November, 2024 Managing Director, DIN: 07852390 UNITED LEASING AND INDUSTRIES LIMITED

Reg. Office: Plot No 66 Sector 34 EHTP Gurgaon, Haryana, India, -122001 CIN NO. L17100HR1983PLC033460, Phone: 0124-4200274, Email: teamunited83@gmail.com EXTRACT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH SEPTEMBER, 2024

				(Rupee	s in Lakhs)
Sr.	Particulars	Quarter	Preceding 3	Correspondi	Current
No.		ended	Months	ng 3 months	Year ended
		30/09/2024	ended	ended in	31Mar 2024
		(3 Months	(31-06-2024)	the previous	
		ended)		year	
		(30-09-2024)		(30-09-2023)	
		Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited
1	Total Income from Operations	172.94	153.46	156.55	719.58
2	Net Profit for the period	14.22	10.63	5.32	8.39
	(before tax, Exceptional and/or Extraordinary				
	items)				
3	Net Profit before tax for the period	14.22	10.63	5.32	8.39
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)				
4	Net Profit for the period after tax, Exceptional	14.22	10.63	5.32	8.39
	and/or Extraordinary items)				
5	Total Comprehensive Income for the period	_	-	-	-
	(comprising profit for the period (after tax)				
	and other Comprehensive Income (after Tax)				
6	Equity Shares Capital	300.00	300.00	300.00	300.00
	(Face value Rs.10/- Per equity share)				
7	Earnings Per Share of Rs. 10/- each (for	0.47	0.35	0.18	0.28
	continuing and discontinued Operations) Basic				
	and diluted				

The above Financial Results were reviewed by the Members of Audit Committee and approved by the Board
of Directors at their respective Meeting held on 12th November, 2024. The Statutory Auditors of the company
have carried out a Limited Review of the Financial Results for these financials.

The Company has adopted Indian Accounting Standards (Ind AS) notified by Ministry of Corporate Affairs from 1st April 2017, with a transition date 1st April 2016 and accordingly these financial Result have been prepared in accordance with the companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other accounting principles generally accepted in India.

Figures for the prior period have been regrouped and / or rearranged wherever considered necessary as per the revised format prescribed by SEBI under SEBI (LODR) Regulations, 2015 and amended as per the Schedule III of the Companies Act, 2013.

For UNITED LEASING & INDUSTRIES LIMITED

Place : New Delhi Date : 12-11-2024

ASHISH KHANNA MANAGING DIRECTOR DIN: 01251582

PRAKASH WOOLLEN & SYNTHETIC MILLS LIMITED Regd. office, 18th KM Stone, Delhi Moradabad Road, NH24, Village-Amhera, Distt: J.P.NAGAR-244102, U.P. CIN-L17291UP1979PLC004804

PH: 8791001430, 9760091983, Email: info@prakashwoollen.com, Website: www.prakashwoollen.com Extract of Standalone Unaudited Results for the Quarter And Half Year Ended 30/09/2024

(Rs in lakhs)										
Г		3 months	Prceeding 3	Corresponding	Year to date	Year to date	Previous year			
	Particulars	ended	months ended	3 months	figures for	figures for the	ended			
	1 artibulato	(30.09.2024)	(30.06.2024)	ended in the	current period	previous year	(31.03.2024)			
				previous year	ended	ended				
				(30.09.2023)	(30.09.2024)	(30.09.2023)				
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)			
1.	Total income from operations (net)	2827.13	1387.14	2499.39	4214.27	4139.71	10214.36			
2.	Net Profit / (Loss)for the period before	(191.42)	(53.09)	(153.74)	(244.51)	(170.24)	18.51			
	Tax and Exceptional items									
3.	Net Profit / (Loss) for the period before	(191.42)	(53.09)	(153.74)	(244.51)	(170.24)	18.51			
	tax and after Exceptional items									
4.	Net Profit / (Loss) for the period after	(99.13)	(31.59)	(92.72)	(130.72)	(158.82)	95.97			
	tax and Exceptional items									
5.	Total Comprehensive Income for the	(99.13)	(31.59)	(92.72)	(130.70)	(158.82)	79.80			
	period [Comprising Profit / (Loss) for the									
	period (after tax) and Other Comprehensive									
	Income (after tax)]									
6.	Equity Share Capital (Face value Rs 10 each)	1025.98	1025.98	1025.98	1025.98	1025.98	1025.98			
7.	Other equity	-	-	-	-	-	-			
8.	Earnings per share for discontinued &									
	continuing operations (of Rs. 10/-each):									
	(a) Basic	(0.97)	(0.31)	(0.90)	(1.27)	(1.55)	0.94			
	(b) Diluted	(0.97)	(0.31)	(0.90)	(1.27)	(1.55)	0.94			
				•	•	•	•			

The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on November 13, 2024.

The standalone results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable. The company is engaged in the blankets business, therefore, there is only one reportable segment as defined in Ind AS-108. Hence

segment reporting is not applicable to the company. The blankets business is seasonal in nature and accordingly financial results for the quarter are not representative of the whole year

Previous year/ quarter figures have been regrouped wherever required.

Place: Village Amhera (Amroha)

Date : 13-11-2024

Vijav Kumar Gupta Whole Time Director & CFO

For Prakash Woollen & Synthetic Mills Limited

PUBLIC NOTICE P, by virtue of Safe Deed dated 25.09.2024, as Doc. V. 2790, and Mr, Mahaveer Jaiswal is intending to sell the me to intending borrower i.e. Suresh Chand and san operty to be finance by SMFG India Home Finan ompany Limited, General public hereby informed that hybody has any charge interest/title in the said proper any kind of dispute kindly inform the undersign writing on the below mentioned address with n writing on the below mentioned address wil 7 days of the present. Rahul Raj Pathak, Advoc SG Associates (Law Fir F 18, Lotos Pond Plaza, Vaibhak Khanl, Indirayam, Ghaziabal -mail: sgassociatespl@gmail.com, Ph: 7011172764, 01204440

PUBLIC NOTICE It is to inform to the Public Notice at large

that I, Rahul Negi is Purchasing the Entire Property Built-up House No. RZ-26P/66-A land ares measuring 40 sq vds, with root right, out of KHASRA No. 691/308. Situated at village Nasirpur, Gali no. 41, Indra Park. Palam Colony, near by Geete Bhawan Mandir South West Delhi, Delhi-110045.

The owner of the property is Smt. Kusun Lata Nauni W/o Devanand Nauni, She is the owner from Regd. GPA/ATS/will (Registered /dated 07/03/2005, and the land area is 40 sq yds. I am Purchasing the Property from Smt. Kusum Lata Nauni (Seller) and I am giving the News Publication that of any person having any type of Claim / Rights/Tille, interest over the Said Property may inform in writing Within 15 days. Said Property is free from all type of the Encumbrance lien etc.

Basukee Nath Jha (Advocate) Plot No 714, A/A, A Block Inder Enclave Ph-2, Kirari Suleman Nagar, ND-86

Property" out of total area measurir lelhi abadi known as Sainik Enclave, Vika: lagar, New Delhi. (Hereinafter referred to a: ne "Entire Property"). Be it known to all that our clients, Mrs. Seem

Be it known to all that our clients, Mrs. Seema Someshwar Rao and Mrs. Seema Bharti (hereinafter called the "Purchase") intend to purchase the said portion from Mr. Randhir Kumar, GPA of Mr. Babu Lal (hereinafter called the "Attorney-holder"). In this connection, the Attorney-holder has informed the purchaser that he is the sole and absolute attorney holder in respect of the said portion vide POA documents viz., GPA, ATS and Will dated 07/09/2005 executed by Mr. Babu Lal in his favour. The Attorney holder has further informed that Mr. Babu Lal owned the said property vide POA documents viz., GPA, ATS and Will dated 30.08.2005 executed by Mr. Krishan Kumar documents viz., GPA, ATS and Will dater 30.08,2005 executed by Mr. Krishan Kuman n his favour. Thus, the Attorney holder is the sole and absolute attorney in respect of the said portion. The Attorney holder has also informed the purchaser that the said portion is not mortgaged anywhere and there is no charge or dispute or any litigation pending regarding the said portion.

ny person including Bank/s, Financia estitution/s. relative/s having any claim ight, title or any interest of any nature whatsoever into or upon the said portion is nereby called upon to make the same known n writing, with documentary evidence, b legistered AD Post, to the undersigned a the address mentioned herein below within 07 days of publication of this notice and in the or days or publication to this include and mine weent of no response having been receiver to the notice, the title of the attorney-holder in respect of the said portion shall be deemed to be clear of any charge or encumbrance any nature whatsoever and any subsequen claim shall not bind our clients/Purchaser, in commission, whatsoever.

nny manner whatsoever.
Shivkant Arora, Advocate
W/s Intellective Law Offices
A-74, LGF, Defence Colony,
New Delhi -110024

CUBICAL FINANCIAL SERVICES LIMITED Regd. Office-456, Aggarwal Metro Height, Netaji Subhash Place, Pitam Pi CIN- L65993DL1990PLC040101 / website : www.cubical90 m Pura. Delhi-110034 E-mail: cubfinser@vahoo.com

(Rs. In Lacs) Year No. Ended 30.09.2024 30.09.2023 31-03-2024 Total Income from operations
Net Profit/ (Loss) for the period before tax
Net Profit / Loss for the period after tax
Equity Share Capital
Programs and other profits and profi

Reserves excluding Revaluation Reserve Earnings Per Share (EPS) (of Rs. 2/- each) The above is an Extract of the Detailsed Format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclocure Requirements) Regulations, 2015 The Full Format of the Quarterely Financial Results is available on the Website of Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com & on Company website at

By Order of the Board of Directors for CUBICAL FINANCIAL SERVICES LIMITED

ASHWANI KUMAR GUPTA MANAGING DIRECTOR DIN-00348616 DATED : 13TH NOVEMBER, 2024 PLACE DELHI.

FEDDERS ELECTRIC AND ENGINEERING LIMITED

Regd. Office: 6 and 6/1 UPSIDC Industrial Area Sikandrabad Bulandshahr UP-203205

Email: imcapital9830@gmail.com, Website: https://imcapitals.com/fedders-electric-engineering/
STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE SECOND

QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2024

(Rs. In Crore)

		Standalone								
		Quarte	r Ended	Six Montl	ns Ended					
		30.09.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023					
	Particulars	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)					
1	Total Income from operations	97.80	146.51	243.55	223.98					
2	Net Profit/(Loss) for the period Before Tax and Exceptional items	7.38	32.98	27.75	36.22					
3	Net Profit/(Loss) for the period After Tax and Exceptional items	6.75	32.98	27.11	36.22					
4	Total Comprehensive Income/ (Loss) for the year [Comprising Profit/(Loss) for the year (after tax) and Other Comprehensive Income/(Loss) (after tax)]	7.76	33.01	27.88	36.30					
5	Equity paidup share capital	30.00	30.00	30.00	30.00					
6	Earnings per share (Not annualised) : Basic (₹) Diluted (₹)	2.25 2.25	10.99 10.99	9.04 9.04	12.07 12.07					
1 '	1 The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the									

Board of Directors at their respective meetings held on 12th November, 2024. The Financial results for the Second quarter and half Year ended 30th September, 2024 have been limited reviewed by the Statutory Auditors of the Company.

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone Quarter ended filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited standalone Results are available on the Stock Exchange websites, www. bseindia.com & www.nseindia.com and on the company website https://imcapitals.com/fedders-electric-engineering/.

Place Sikandrabad (U.P) Date: 13 11.2024

By Order of The Board

DIN: 00335325

ng/.
For Fedders Electric and Engineering Limited
Sql
Vishal Signal
Managing Director
DIN: 02518795

नोएडा में अवैध निर्माण को रोकेगी टास्क फोर्स

निर्माण के लिए 131

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

नोएडा एक्सप्रेसवे पर चेनेज 16.900

किमी पर एक अंडर पास बनाया

जाना है। इसका स्ट्रक्चर डिजाइन

131 करोड़ रुपए लगाई गई। स्टक्नर

के अनुसार बजट कम या ज्यादा है।

इसका वैरिफिकेशन आईआईटी

रुड़की कर रहा है। दो बार यहां

मारपीट करने वाले

सात छात्र गिरफ्तार

नोएडा। सेक्टर-110 स्थित महर्षि

विश्वविद्यालय में रैगिंग का विरोध

करने पर जूनियर छात्रों के साथ

मारपीट का वीडियो सोशल

मीडिया पर वायरल होने के बाद

नोएडा पुलिस ने सात छात्रों को

गिरफ्तार कर लिया। एक महीने पुराने

इस मामले को विश्वविद्यालय प्रबंधन

ने आरोपी छात्रों को निलंबित कर दबा

दिया था। मंगलवार को ही पीड़ित की

शिकायत पर सेक्टर-39 थाने में केस

PUBLIC NOTICE

Said Property" out of total area measurin 617 sq.yds. falling in Khasra No. 26/15/č ituated in the area of Village Hastsa telhi abadi known as Sainik Enclave, Vika

lagar, New Delhi. (Hereinafter referred to a he "Entire Property").

ne Enure Property J. 3e it known to all that our clients, Mrs. Seema Someshwar Rao and Mrs. Seema Bharti hereinafter called the "Purchaser") intend o purchase the said portion from Mr. Randhir Kumar, GPA of Mr. Babu Lai

einafter called the "Attorney-holder connection, the Attorney-holder

nformed the purchaser that he is the so

and absolute attorney holder in respect of the said portion vide POA documents viz., GPA

ATS and Will dated 07/09/2005 executed b

r. Babu Lal in his favour. The Attorne older has further informed that Mr. Babu La

holder has further informed that Mr. Babu Lal owned the said property vide POA dwned the said property vide POA dwned the said property vide POA documents viz., GPA, ATS and Will dated 30.08.2005 executed by Mr. Krishan Kumar in his favour. Thus, the Attorney holder is the sole and absolute attorney in respect of the said portion. The Attorney holder has also informed the purchaser that the said portion is not mortgaged anywhere and there is no charge or dispute or any litigation pending regarding the said portion. Any person including Bank/s, Financial Institution's, relative's having any claim, right, title or any interest of any nature whatsoever into or upon the said portion is hereby called upon to make the same known, in writing, with documentary evidence, by Registered AD Post, to the undersigned at the address mentioned herein below within 17 december 18 theretics of the said button the said portion of 18 the said portion

7 days of publication of this notice and in th

event of no response having been receive to the notice, the title of the attorney-holder i

espect of the said portion shall be deemed

be clear of any charge or encumbrance of

any nature whátsoever and any subsequer claim shall not bind our clients/Purchaser, i

Shivkant Arora, Advocate

on of Plot No. 51, land measurin . *"said portion"* out of 250 sq.yds p*erty"* out of total area measurin

इसी आधार पर इसकी कास्ट

करोड की लागत

बनाया जा चुका है।

🕨 निगरानी कर पाधिकरण को देगी रिपोर्ट, इस्टर्न पेरीफेरल के पास खुलेगा कार्यालय

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

डीएनजीआईआर के 209 वर्ग किमी में बसाया जाना है। मास्टर प्लान 2041 शासन से अप्रूव हो चुका है। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण ने 80 गांवों की जमीन को अधिसूचित किया है। प्राधिकरण ने यहां बिना अनुमति लिए निर्माण

भू-माफियाओं और कालोनाइजरों से बचाने के लिए प्राधिकरण एक टास्क फोर्स भी गठित करेगा। साथ ही डीएनजीआईआर क्षेत्र अधिग्रहण के साथ ये जमीन डीएनजीआईआर की है जैसे बोर्ड लगवाएगा। इससे पहले डीएनजीआईआर के पहले फेज को जमीन पर उतारने के लिए डेडिकेटेड सैल गठित किया गया

🛡 पंजाबी एवं सिख

समाज के साथ एक

बैटक में भी शामिल होंगे

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

उपचनाव को लेकर भाजपा ने परी

ताकत झोंक दी है। 16 नवंबर को

सीएम योगी आदित्यनाथ शहर में

रोड शो करेंगे। इसके लिए भाजपा

नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है।

चुनाव प्रचार के आखिरी समय में

सीएम का गाजियाबाद दौरे को

लेकर पार्टी पदाधिकारी तैयारियों में

जुटे हैं। पिछले सप्ताह भी सीएम

और चुनाव के संयोजक आशु वर्मा

ने जानकारी देते हुए बताया कि

सीएम योगी आदित्यनाथ शहर में

रोड शो करेंगे। इसमें भाजपा पूरी

तरह से तैयारी में जुटी है। शहर

विधानसभा उप चुनाव में भाजपा

प्रत्याशी संजीव शर्मा के चुनाव प्रचार में क्षेत्र की जनता से अपील

करने के लिए 16 नवंबर को शाम

To be known to all that I, Gyan Chand Yadav S/o Late Sh Deep Chand Yadav R/o A-4/504, Printers Apart ments, Sector-13, Rohini, Delhi-110085, Mob

9810798236, Email: yadavmcdsiidc@gmail.com The owner of the Society Flat No. C-302 Mahalaxm

Co-Operative Group Housing Society Ltd Plot No 4, Sec 2, Ph-I, Dwarka. The original papers i.e. Share certificate of Membership No. 440 issued from

society has been lost. A F.I.R to this effect has been lodged to police station dt. 23/05/2024. Any person(s) claiming any right, having any objection or found in possession of original document may write/

contact with above named person at above address within 15 days from the date of publication of this

(Group Housing) C- Block, 2nd Floor, INA, Vikas

कर पूर्व अवधि के लिए लाभ / (हानि)
 कर पश्चात् अवधि के लिए शढ़ लाभ

5 पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर रिजर्व

प्रति शेयर आय (ईपीएस) (प्रत्येक रु. 2/-

ात् अवधि के लिए शुद्ध लाभ⊅हारि

विवरण

क्र. विवरण

4 | इक्विटी शेयर पूंजी

डायल्यूटिङ

दिनांकः 13.11.2024

Deputy directo

क्यूबिकल फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड

भीआईएन— L65993DL1990PLC040101, वेबसाइटः www.cubical90.com ई−मेलः cubfinser@yahoo.com

30 सितम्बर 2024 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश

टिप्पणी:- उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33

के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर श्रैमासिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारंश है। तिमाई

वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की

कार्यालय—456, अग्रवाल मेट्रो हाइट, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतम पुरा, दिल्ली—110034

30-09-2024

1303.4

0.04

गाजियाबाद के पूर्व महापौर

गाजियाबाद दौरे पर रहे।

गाजियाबाद में सीएम योगी

१६ नवंबर को करेंगे रोड शो

4 बजे रोड शो में शामिल होंगे।

कार्यक्रम की पुष्टि हो चुकी है।

प्रस्तावित रूट के अनुसार शाम 4

बजे विजय नगर चाणक्य चौक से

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड

शो का शुभारंभ करते हुए डीएवी

स्कुल प्रताप विहार पर समापन

करेंगे। भाजपा मीडिया प्रभारी

महानगर गाजियाबाद प्रदीप चौधरी

ने बताया कि सीएम के कार्यक्रम के

लिए पार्टी के पदाधिकारी तैयारियों

में जुटे हैं। आगामी होने वाले एक

और घोषित कार्यक्रम में बदलाव

की जानकारी देते हुए बताया कि

अब राष्ट्रीय सचिव सरदार मनजिंदर

सिंह सिरसा 16 नवंबर को दोपहर

2 बजे कवि नगर रामलीला मैदान में मंच के पास बने सभागार में

पंजाबी एवं सिख समाज के साथ

R/o A4/504, Printers Apartments, Plot No. 18, Sector

yadavmcdsiidc@gmail.com, The owner of the Society Flat No. A-4/504. Printers Apartments Sector 13. Plot

No. 18, Rohini, Delhi-110085. The original papers i.e

Allotment Letter issued by society of abovesaid property

has been lost. A F.I.R to this effect has been lodged to any right, having any objection or found in possession

of original document may write/contact with above

named person at above address within 15 days from

the date of publication of this notice & can personally

contact - Deputy Director (Group Housing) C- Block

समाप्ति तिमाही समाप्ति तिमाही | समाप्ति वर्ष

30-09-2023

1303.4

-0.02

निदेशक मंडल के आदेशानुसा

डीआईएन—0034<u>8616</u>

क्यबिकल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड हेत इनाशयल सावसण ग्लान्ट ०५ हस्ता/— (अश्वनी कुमार गुप्ता) प्रबंध निदेशक

(लाख रुपये में)

31-03-2024

रेखा—परीक्षित

273.45

115.88

1303.40

169.27

0.18

2nd Floor, INA, Vikas Sadan New Delhi.



है। बतौर एक कार्यालय इस्टर्न पैरीफेरल के पास बनाया जाएगा। जिसके लिए जमीन चिह्नित की जा रही है। बताया गया कि आफिस निर्माण के साथ ही यहां नियोजन विभाग की टीम को गितत किया जाएगा।

इस टीम का काम सर्वे करना, डिजाइन बनाना और प्लान के हिसाब से जमीन को चिह्नित कर भूलेख विभाग को बताना होगा। इसके बाद यहां जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया है। इसके दो विकल्प है आपसी सहमति और लैंड पुल। किसी एक को जमीन अधिग्रहण के लिए लागु किया जाएगा। प्राधिकरण ने बताया कि हमारे लिए सबसे बडी चुनौती जमीन पर अवैध निर्माण को रोकना है। इसके लिए ही डीएनजीआईआर में पहले फेज के हिसाब से सर्किल बनाकर टास्क

फोर्स गठित होगी। जिसमें

सपरवाइजर से लेकर एसएम तक के अधिकारी रिपोर्ट सौंपना अधिस्चित किया गया था।

अधिस्चित क्षेत्र में जिला गौतम बुद्ध नगर

१ हजार करोड जमीन अधिग्रहण के लिए रिजर्व

प्राधिकरण ने 213 वीं बोर्ड में करीब 1 हजार करो ? रुपए जमीन अधिग्रहण के रिजर्व किए हए है। जिनका परे वित्त वर्ष में उपयोग नहीं हो सका। ये पैसा यहां पहले फेज में जमीन अधिग्रहण के लिए रिजर्व किया गया है। अधिग्रहण आबादी नियमावली 2013 यानी आपसी सहमति के आधार पर या लैंड पूल के जरिए की जाएगी। इसके लिए शासन से गाइड लाइन जारी की जाएगी।

तक पूर्ण किया जाना है। इसके अतिरिक्त द्वितीय चरण में 3798 हैक्टेयर भूमि का विकास साल 2032 तक, तृतीय चरण में 5908 हेक्टेयर भूमि का विकास साल 2037 तक एवं चतुर्थ चरण में 8230 हेक्टेयर भूमि का विकास वर्ष 2041 तक किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसे में प्रथम चरण का अधिग्रहण जल्द शुरू

शहर में 23 रूट पर नंबर से चलेंगे ऑटो

नोएडा। नोएडा में अब 23 रूट पर नंबर से ऑटो संचालित किए जाएंगे। इसकी शुरुआत बुधवार को पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने की। यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ऐसा किया गया।

उन्होंने ऑटो चालक को रूट चार्ट और रूट नंबर दिए। इसके बाद हरी झंडी दिखाकर खाना किया। ऑटो चालकों, ई-रिक्शा चालक व परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित कर आपसी सहमति के आधार पर रूट का निर्धारण किया गया है। जिससे ऑटो चालकों, ई-रिक्शा चालकों व आमजन को परेशानी का सामना न करना पड़े। बता दे रोजाना हजारों लोग इन ऑटो , ई रिक्शा से अपने गंतव्य को जाते है। रूट चार्ट नहीं होने से सवारियों को लेने के लिए ऑटो और ई रिक्शा एक स्थान पर जमावड़ा लगा देते थे। जिससे यातायात जाम की समस्या होती थी।

संक्षिप्त समाचार

मधुमेह की गिरफ्त में तेजी से आ रही है युवा पीढ़ी

नोएडा। 13 नवंबर को हर साल वर्ल्ड डायबिटीज 🚾 🎎 💴 डे मनाया जा रहा है। फोर्टिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन डॉ. दिनेश कुमार त्यागी ने टाइप 2 डायबिटीज के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि पहले यह बीमारी केवल बुजुर्गों में पाई जाती थी, लेकिन अब यह युवाओं और किशोरों में



भी तेजी से फैल रही है। इसके पीछे जीवनशैली, पर्यावरण और आनुवंशिक कारणों का मिश्रित प्रभाव है। डॉ. त्यागी ने बताया कि शहरी क्षेत्रों जैसे ग्रेटर नोएडा में, जहां निष्क्रिय जीवनशैली, खराब आहार, तनाव और प्रदुषण जैसी समस्याएं आम हैं, इन कारणों से डायबिटीज के मामलों में लगातार

छोटा हाथी में भरकर ला रहे थे तीन भैंस, केस दर्ज

नोएडा। छोटा हाथी में तीन भैंस भरकर ले जा रहे दो लोगों को थाना जारचा पुलिस ने बीती रात को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ पशु करूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि बीती रात को थाना जारचा में तैनात उप निरीक्षक संजीव कुमार कलौदा पुलिया के पास चैकिंग कर रहे थे। तभी एक छोटा हाथी आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने बताया कि छोटा हाथी को रुकवा कर पुलिस ने जब उसे चेक किया तो उसमें तीन भैंस भरी हुई थी, जो एक दुसरे के ऊपर लदी हुई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने छोटा हाथी के चालक वसीम और उसमें सवार आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ पश क्रूरता अधिनियम 11 (1)(बी) के तहत मकदमा दर्ज हुआ है। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि वे लोग किराया बचाने के उद्देश्य से छोटा हाथी में भैंसों को दुस- दुस कर

पुलिस ने दबोचा चोरों का अंतरराज्जीय गैंग

गाजियाबाद। नन्दग्राम थाने के एसएचओ धर्मपाल सिंह की टीम ने दिल्ली एनसीआर में चोरी की वारदातों की झड़ी लगा देने वाले गैंग के दो शातिर चोरों को गिरफ्तार करके उनके पास से लाखों का माल बरामद कर लिया। पूछताछ के दौरान चोरों ने अपने नाम शाहिद व सोएब निवासीगण दीनदयालपुरी नन्दग्राम बताये। साथ ही चोरी की कई वारदातों को अंजाम देने की बात भी इन दोनों बदमाशों ने स्वीकार की। पुलिस के मुताबिक शाहिद व सोएब नशे की लत पूरा करने के लिये चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। ये दोनों टोंटी चुराने में भी माहिर है।

मानरिक तनाव के चलते बुजुर्ग महिला ने की आत्महत्या

नोएडा। थाना सेक्टर-113 क्षेत्र के सेक्टर-78 स्थित अंतरिक्ष गोल व्यू -दो सोसाइटी के जे- टावर में रहने वाली एक 65 वर्षीय महिला ने आज सुबह को मानसिक तनाव के चलते अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना सेक्टर-113 के प्रभारी निरीक्षक कृष्ण गोपाल शर्मा ने बताया कि आज सुबह को थाना पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर-78 स्थित अंतरिक्ष गोल व्यू द्वितीय सोसाइटी के जे टावर के 906 नंबर के फ्लैट में रहने वाली नीलम उम्र 65 वर्ष ने मानसिक तनाव के चलते अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पंखे से फंदा लगाकर युवक ने दी जान

नोएडा। थाना सेक्टर-126 क्षेत्र के शाहपुर गांव में रहने वाले एक युवक ने मानसिक तनाव के चलते अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना सेक्टर-126 के प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र बालियान ने बताया कि सोनू पुत्र सुनील उम्र 35 वर्ष शाहपुर गांव सेक्टर-128 में रहते थे। उन्होंने बताया वह मूल रूप से झारखंड के रहने वाले थे। थाना प्रभारी ने बताया कि बीती रात को सोनू ने अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। उन्होंने बताया कि घटना की सुचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है

esidential Colony known as Rajendra Naga haziabad, Tehsil & District Ghaziabad, U.F ereinafter referred to as "said property".

"General Public is hereby informed that one Mr. Ja Prakash Goel S/o Sh. Raj Kumar Goyal (PAM AESPG 9146F) R/o A-49, Ashok Vihar, Phase-1 North West Delhi, Delhi, who is the co-owner alon-with 2) Mrs. Anu Goel 3) Mr. Sanjay Kumar Goelo property i.e. Property Bearing No. A-49, are: measuring 200 sq. w/s in Block A extract in the measuring 200 sq. yds. in Block-A, situated in the layout plan of Ashok Vihar Phase-I, Wazirpur Delhi hereinafter referred to as "said property", having acquired the same vide 2 Sale deeds i.e. Sale Deed lated 22.08.2016 executed by Gian Prakash Goe in favour of Jai Prakash Goel ánd Anu Goel for (FF with ½ share in Roof of FF), of said property (Doo No. 10979Vol. 6471 Pages 44-51, on Dt 22.08.2016) ANDSale Deed dated 22.08.2016 executed by Gian Prakash Goel in favour of Sanjay Kumar Goel and Anu Goel in respect of the (GF with ½ share in Roof of FF),of said property (Doc. No. 10978 Volume No. 6471 on Pages 36-43, on

Be it known to all that our clients. Mr. Son

harma and Ms. Suman Sharma (hereinafte

sluated in the revenue estate of Village Razapur Khurd, Dehi State Dehi, Ultam Nagar, New Dehi-110059, vide Sale Deed dated 26 09.2024 (Doc. no. 2024/25/1/26380), executed by Mr. Ashutosh Agarwal. All persons are here by informed that above mentioned owners want to sell the property to a person who wants to obtain a loan from our client against the said property. If, anybody has any objection/s upon the ownership of above owner over the said property, its sale/mortgage/litigation, 8, any other objections, kindly inform the undersigned in writing on the below mentioned address within 7 days of the present. Kumar & Associates (Advocates & Consultants) 200, Itan Floor, 23, Shivaji Marg, Moli Nagar, No Dehi-15 Ph: 011-41112527-28 legal@knalegal.com

PUBLIC NOTICE

No. 10978 Volume No. 6471 on Pages 36-43, on dated 22.08.2016). The said Property has been mortgaged by the owner with HDFC Bank Limited (our client). It is hereby declared that title of the said Property, is absolutely valid, clear and marketable and there is no dispute / Litigation pending in any court of law, in respect of said Property. Whosoever, is having any objection to said mortgage OR any Person having any type of claim/right/tile/interest over the said property may inform in writing, at the address mentioned below, about his objections, within 07 days from today, failing which it shall be presumed that the said property is free from all type of Encumbrances, lien etc.
VIPUL KR. RAHEJA (Advocate) Ch. no. 55, Civil Side, Tis Hazari Courts, Delhi-110024, Mob-9873150663

salled the "Purchaser") intend to purchase the said floor of the said property from (1) Mr Aamesh Chand (2) Mr. Sanjay Kumar Gupta, 3) Anita Varshney, and (4) Chetan Varshney hereinafter called the seller). In this connection, the seller have informed the burchaser that they are the joint owners of the laid floor being legal heirs of late Smt. Kusum lata. The seller have further informed the

urchaser that the said floor was owned b mt. Kusum Lala vide Sale Deed executed b Smit. Kusum Lala vide Sale Deed executed by M/s Vipin Associates thru its Proprietor Vipin Gupta. The said sale deed is registered as Document No. 7641, Book No. 1, Volume No.7474, pages 219-288, on 30/08/2011 (SRO-III Ghaziabad). Smit. Kusum Lata expired leaving behind the following legal heirs viz., (1) Mr Ramesh Chand (2) Mr. Sanjay Kumar Gupta, (3) Anita Varshney, and (4) Chetan Varshney. After her death, the said floor was inherited by them and thus they are the joint owners of the said floor. The seller have also informed the purchaser that the said floor is not mortgaged anywhere and there is no charge or dispute or any litigation pending regarding the said floor.

Any person including Bank/s, Financial Any person including Bank/s, Financia Institution/s. relative/s having any claim, right

title or any interest of any nature whatsoeve into or upon the said floor is hereby called upon to make the same known, in writing, with documentary evidence, by Registered AD Post, to the undersigned at the address mentioned herein below within 07 days of publication of this notice and in the event of n esponse having been received to the notice the title of the seller in respect of the said floo shall be deemed to be clear of any charge of encumbrance of any nature whatsoever an any subsequent claim shall not bind ou clients/Purchaser, in any manner whatsoever

Shivkant Arora, Advocate M/s Intellective Law Offices A-74, LGF, Defence Colony, New Delhi -110024

फेडर्स इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड CIN: L29299UP1957PLC021118

पंजी. कार्यालयः ६ एवं ६ / 1 यूपीएसआईडीसी इंडिस्ट्रियल एरिया सिकन्दाबाद बुलंदशहर यूपी—20320६ ई—मेल : imcapital9830@gmail.com, वेबसाइट : https://imcapitals.com/fedders-electric-engineering 30 सितम्बर 2024 को समाप्त दूसरी तिमाही एवं छमाही के लिए अलेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणामों का विवरण

समाप्त तिमाही समाप्त छमाही 30.09.2024 30.09.2023 30.09.2024 30.09.2023 'अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) 1 परिचालनों से कुल आय 97.80 146.51 243.55 223.98 कर एवं असाधारण मदों से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाम / (हानि) 7.38 32.98 27.75 36.22 ३ कर एवं असाधारण मदों के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि 6.75 32.98 27.11 36.22 4 वर्ष के लिए कुल व्यापक आय / (हानि) (वर्ष के लिए लाभ / (हानि) (कर पश्चात) एवं अन्य व्यापक आय / (हानि) (कर पश्चात) शामि 30.00 30.00 30.00 30.00 प्रित शेयर अर्जन (वार्षिकीकत

मूल (९) तनुकृत (रु.)
1. उपरोक्त परिणामों की 12 नवम्बर 2024 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा एवं अनुशंसा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। 30 सितम्बर, 2024 को समाग्त दुसरी तिमाही एवं छमाही के लिए वित्तीय परिणामों की कंपनी के साविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा की गई है।

त्तामत समाक्षा का गड़ हं। . उपरोक्त सेबी (सूबीयन एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेजों के पास दाखिल अलेखापरीक्षित एकल तिमाही के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। अलेखापरीक्षित एकल परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट : https://imcapitals.com/ledders-electric-engineering. पर उपलब्ध है।

विशाल सिंघल

प्रबंध निदेशक डीआईएन : 035/8795

कृते फेडर्स इलेक्टिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड

होंगे। जिनका काम अवैध निर्माण पर नजर डीएनजीआईआर क्षेत्र अगस्त 2017 को

एवं जिला बुलंदशहर के अंतर्गत कुल 80 गांव है। क्षेत्र का विकास 4 चरणों में वर्ष 2041 तक किया जाना प्रस्तावित है जिसमें से प्रथम चरण में 3165 हेक्टेयर भूमि का विकास साल 2027

एक्सप्रेसवे पर बनेगा अंडर पास, ११ गावों को मिलेग लाभ

2020 के बाद एक्सप्रेस वे पर कोंडली, एडवंट और सेक्टर-96 अंडरपास बॉक्स पुशिंग तकनीक पर बनवाए गए थे। इसमें लगातार एक्सप्रेस वे की सड़क धंसने की समस्याएं सामने आई थीं। इसलिए अबकी बार अंडर पास निर्माण के लिए प्राधिकरण डायाफाम तकनीक का चयन किया है। इसमें बगैर खुदाई के डायाफाम वॉल कास्ट की जाएगी। इसके बाद दो तरफ जमीन के अंदर यह दीवार बनाकर उसके ऊपर अंडर पास की छत ढाल दी जाएगी। नीचे

खुदाई कर निकाली जाएगी। इसके बाद नीचे की सड़क का काम शुरू होगा। इसी तरह से दोनों लेन का काम पाधिकरण करवाएगी।

प्राधिकरण ने बताया कि इस अंडर पास से निर्माण से नोएडा के सेक्टर 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,162 और इससे जुड़े 11 गांवों को फायदा मिलेगा।

इस अंडर पास की लंबाई करीब 800 मीटर है। दिसंबर में इसका काम

मिलने के बाद पुलिस की एक टीम का गठन किया गया।

उन्होंने बताया कि पहले इस मामले में कॉपीराइट की

धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई और फिर कंपनी के

अधिकारयों के साथ पुलिस को मौके पर भेजा गया।

पुलिस ने पहले गांव भोजपुर में एक दुकान पर छापा मारा

जहां से 310 बोरी बरामद की और फिर कस्बा फरीदनगर

की दुकान पर छापेमारी कर 100 बोरी सीमेंट की बरामद

की। पुलिस ने विश्वेंद्र निवासी भोजपुर और गौरव निवासी

Singh R/o B-106, Printers Apartments, Plot No. 18.

Sector 13, Robini, Delhi-110085, Mob. 8178340152

Email: archangydv65@gmail.com, The owner of the Society Flat No. B-106, Printers Apartments, Sector 13, Plot No. 18, Rohini, Delhi-110085. The original

papers i.e. Allotment Letter issued by society of

abovesaid property has been lost. A F.I.R to this effect has been lodged to police station dt. 10/06/2024. Any person(s) claiming any right, having any objection or

found in possession of original document may write/

contact with above named person at above address

within 15 days from the date of publication of this notice & can personally contact- Deputy Director

(Group Housing) C- Block, 2nd Floor, INA, Vikas

It is to inform to the Public Notice at large

that I, Rahul Negi is Purchasing the Entire

Property Built-up House No. RZ-26P/66-A

land ares measuring 40 sq yds, with root right, out of KHASRA No. 691/308. Situated

at village Nasirpur, Gali no. 41, Indra Park

Palam Colony, near by Geete Bhawar

The owner of the property is Smt. Kusum

Lata Nauni W/o Devanand Nauni, She is

the owner from Regd. GPA/ATS/will

(Registered /dated 07/03/2005, and the

land area is 40 sq vds. Lam Purchasing the

Property from Smt. Kusum Lata Nauni

(Seller) and I am giving the News

Publication that of any person having any

type of Claim / Rights/Tille, interest over

the Said Property may inform in writing

Within 15 days. Said Property is free from

Plot No 714, A/A, A Block Inder Enclave Ph-2, Kirari Suleman Nagar, ND-86

Basukee Nath Jha (Advocate)

all type of the Encumbrance lien etc.

Mandir South West Delhi, Delhi-110045.

410 बोरे नकली सीमेंट बरामद, मामला दर्ज नकली सीमेंट दो दुकानों पर बेचा जा रहा है। सूचना

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

फाइल भेजी जा चुकी है। जिसमें

संशोधन के कहा गया। अब संशोधन

के बाद गुरुवार को तीसरी बार फाइल

अफ्लवल मिल जाएगा। इसके बाद

टेंडर जारी कर निर्माण शुरू कराया जा

सकता है। इस बार बनाए जाने वाले

संभवत दो सप्ताह में वहां से

भेजी जा रही है।

मोदीनगर के गांव भोजपुर में नकली सीमेंट बेचने का मामला सामने आया है। विक्रेता अल्टाटेक कंपनी का लेवल लगाकर नकली सीमेंट बेच रहा था। कंपनी के अधिकारियों की सूचना पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने दोनों दुकानों से 410 सीमेंट की बोरी बरामद की हैं।

इस कार्रवाई के बाद सीमेंट व्यापारियों में ह?कंप मचा हुआ है। एसीपी मोदीनगर ज्ञानप्रकाश राय ने बताया कि एक अल्ट्राटेक कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक संजय शर्मा ने भोजपुर थाने में तहरीर दी है कि कंपनी के लेवल लगाकर

फरीदनगर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। कंपनी के अधिकारियों ने बताया बोरी में रेत भरा हुआ था और कंपनी का लेवल लगाकर बेचा जा रहा था। सार्वजिनिक सूचना आम जनता को एतदृहारा सुचित किया जिता है कि श्री महावीर जायसवाल, खसरा नंदर 157मी में से 100 वर्ग गज यानि 83.61 वर्ग भीटर क्षेत्रफल वाली आवासीय प्लॉट संख्या 2101 के मातिक हैं, जो आवासीय कॉलोंगे पर पार्क, एक्सटेंगर एय-ब्लॉक, ग्राम इंक्विकतपुर उर्फ खुवाबस, एमगा लोगी, तहसीर लोगी, जिला गाजियाबार, एतर प्रवेश में स्थित है, बिकी विलेख दिगांक 25.09

PUBLIC NOTICE

all her relations with Mrs Komal wife of the

master Krishna singh and miss Yashik

deceased son Deepak Kumar and her

सार्वजिक स्मूचना चूंकि श्री शिव शंकर आदित्य बिडला हार्जिसंग फाइनेस लिमिटेड से संपत्ति के लिए गुरु ऋण मांग रही हैं. अर्थात संपत्ति संख्या ई-12, क्षेत्रफल 291.6 वर्ग फीट हैं. जो अलीगज, बी.के. दत्त कॉलोनी, कबंला, नाई दिल्ली में रिधता हैं. श्री शिव शाकर ने हमें यह समझाया हैं कि छिलो मालिक ने श्रीमती मंजू आनंद ने श्री सोना सिंह के पक्ष में आवंटन पत्र, कब्जा पत्र और पट्टा सह हस्तांतरण दिलेख, दस्ताचेज संख्या 2117 दिनांक 28.03.1969, खो रिए हैं या गतत जगह रख दिए हैं जिसका LR No. 2297438/2024 दिनांक 13.11.2024 है, जो कहीं पता लगाने योग्य नहीं हैं या नहीं मिल सकते हैं। अब, मैं आम जनता के लिए यह धोषणा करना चाहता हं गाजियावाद, उत्तर प्रवश । राखत है, बक्रा विलय दिनांक 25फ उट्टिय, दस्तांचेत संख्या 17290 के माध्यम से हैं, और श्री महावी जायत्तवाल इसे इच्छुक उधारकर्ता अर्थात सुरेश चंद को बेचने व इरावा रखते हैं, और इस संपत्ति को एस्सरम्परफजी इंडिया हो काइनेंस कंपनी लिस्टिड हाता विलयोवित किया वाना है। यं किसी व्यक्ति के पास उत्तर संपत्ति में कोई प्रमार/हित/ स्वामित्व हैं या किसी भी प्रकार का विवाद है, तो कुर्वाम्ब अब, मैं आम जनता के लिए यह धोषणा करना चाहता कि कोई भी व्यक्ति जिसका उक्त संपत्ति/शेयर र दस्तावेजों के खिलाफ कोई अधिकार, स्वामित या हि है, तो वह सात दिनों के भीतर दस्तावेजी वैध साक्ष्य एफ18 लोटस पॉन्ड प्लाजा वैभव खंड इंदिरापरम

राज्य चरणा प्रचलन प्रभावलच न आकर अपना दावा अस्तुत कर सकते है यदि कोई ऐसा नहीं करते हैं, तो उसे अस्वामिक और अप्रतिबंधित माना जाएगा और

त अत्यानम् आर अत्यानम् । दनुसार आने बढ़ाया जाएगा। मैसार्स पास एक एसोसिएट्स, एलएलपी बी—132, एल.जी.एफ, मालवीय नगर, नई दिल्ली—110017, मो. **9991116006**

ाथ हमारे दिल्ली

PUBLIC NOTICE

I/We SH. DHEERAJ TANDON am/are filing application in L&DO for substitution / mutation of the property no.231 Front side Bharat Nagar, Ashok Vihar, North West Delhi-110052 in the HEIR If there are any objections

Under the instructions from my client **BEENA RANI** W/o Hari Singh resident of Flat no. 8 pocket Q, Dilshad Garden, Delhi 110095, it is ereby notified to the general public at large the enceforth my above-named client has cease

कार्यालय में आकर अपना

name of LATE SH.DARSHAN LAL TANDON on the grounds of LEGAL claims from the general public on this application, the same shall be communicated to L&DO with supporting documents through registered post or by visiting L&DO at Nirman Bhawan, New Delhi or through an email at Ido@nic.in, within 30 days of publication of this notice.

appropriate Forum. HIMANSHU JOSHI, (Advocate) OFF. ADDRESS H. NO 44 Sector-23, Sanjay Nagar Ghaziabad

completely and forever and further my clie lisown their aforesaid daughter in law and he kids. It is hereby clarified that henceforth th said daughter-in-law and her kids of my clie shall not accede any of their property asset moveable and immovable as legal heirs at an moveable and immovable as legal heirs at any point of time and any person dealing with he may deal with her at his/her own risk ant responsibility for which my client shall not be held responsible. It is hereby further clarified that though their aforesaid daughter-in-law and her kids are residing at the same address wher my client is living and is the sole registered owner of the abovementioned property, still my client disowns her as her said daughter-in-law residing there against the wishes and desire or my client as unauthorized occupants and my client shall be constrained to initiate proceeding against the said daughter in law before appropriate Forum.

DHEERAJ TANDON

कैमेक कॉमर्शियल कम्पनी लिमिटेड पंजी. कार्यालय : प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 कार्पोरेट पहचान संख्या : एल७०१०९डीएल१९८०पीएलसी१६९३१८ फोन : ७३०३४७५५४, ई-मेल : camaccommercial@gmail.com, वेबसाइट : www.camaccommercial.com 30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

(रूपए लाख में, सिवाय प्रति								
क्र			तिमाही सम	ाप्त	अर्द्ध वर्ष	वर्ष समाप्त		
सं	विवरण	30—09— 2024 (अलेखापरीक्षित)	30-06- 2024 (अलेखापरीक्षित)	30—09— 2023 (अलेखापरीक्षित)	30—09— 2024 (अलेखापरीक्षित)	30-09- 2023 (अलेखापरीक्षित)	31—03— 2024 (लेखापरीक्षित)	
1.	परिचालन से कुल आय	174.18	23.42	45.12	197.60	104.60	296.32	
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) (कर तथा अपवाद मदों से पूर्व)	158.83	6.64	17.55	165.47	(38.60)	92.89	
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) कर पूर्व (अपवाद मदों के बाद)	158.83	6.64	17.55	165.47	(38.60)	92.89	
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) कर तथा अपवाद मदों के बाद	136.26	5.93	17.77	142.19	(37.86)	93.48	
5.	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित हैं]	39,765.07	159.41	(2,148.77)	39,924.48	(1,050.94)	(4,842.81)	
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	88.28	88.28	88.28	88.28	88.28	88.28	
7.	अन्य इक्विटी						1,68,323.30	
8.	रू. 10/-प्रत्येक के शेयर पर प्रति शेयर अर्जन							
	(क) मूल (रू.)	15.44	0.67	2.01	16.11	(4.29)	10.59	
		15.44	0.67	2.01	16.11	(4.29)	10.59	

्र... उपरोक्त वित्तीय परिणाम लेखापरीक्षा समिति द्वारा पुनरीक्षित तथा निदेशक मंडल द्वारा 13 नवम्बर, 2024 को आयोजित उनकी संबंधित बैठ न अनुभारत एवं आनलखबब किए गए हैं। उपरांचेल विवरण सेनी (सूचीमन दावित्व और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सवेन्ज में प्रस्तुत किए गए 30 सितम्बर, 2024 को समापा तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु अलंखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण हैं। कम्पनी के वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं तथा 13 नवम्बर, 2024 को कलकत्ता स्टॉक एक्सवेंज लिमिटेड

न हाउस, 4801, मरत राम रोड 24, दरियोगंज, नई दिल्ली—110002, (मारत) सीआईएन : एल74899डीएल1980पीएलसी060079 फोन : 91-11-23273907, वेबसाइट : https://saneh.in, ई-मेल : sanehltd@gmail.com 30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही तथा अर्द्ध—वर्ष हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण (रू. लाख में)

सनेह इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड

		समाप	समान्त	। समाप्त ।	(1411-4)		समान्त
		30-09-2024	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2024	30-09-2024	30-09-2023
		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित
1	प्रवालनों से कुल आय (शुद्ध)	-	0.01	0.03	5.19	7.95	3.19
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ	(1.88)	(3.13)	(0.28)	1.86	4.01	2.51
	(कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)						
3	अवधि हेतु शुद्ध लाभ, कर से पहले	(1.88)	(3.13)	(0.28)	1.86	4.01	2.51
	(अपवाद तथा / अथवा असाधारण मदों के बाद)						
4	अवधि हेतु शुद्ध लाभ, कर पश्यात	(1.88)	(3.13)	(0.28)	(2.20)	(1.01)	2.95
	(अपवाद तथा/अथवा असाघारण मदों के बाद)						
5	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ (कर	276.82	491.05	87.24	1,043.47	1,828.64	337.55
	पश्चात) तथा कुल समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित है]						
6	इक्विटी शेयर पूंजी	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
7	(अंकित मूल्य रू. 10/– प्रति शेयर)						
	प्रति शेयर अर्जन (असाघारण मदों से पूर्व)						
	(अंकित मूल्य रू. 10/- प्रत्येक)	(0.78)	(1.30)	(0.11)	(0.92)	(0.42)	1.23
	(क) मूल (रू.)	(0.78)	(1.30)	(0.11)	(0.92)	(0.42)	1.23
_	·	(0.70)	(1.00)	,0.11)	(3.02)	(0.12)	1.20
7117	ਤਹਾਂ ·						

ं उपरोक्त विवरण सेबी (सूबीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए गए अ-लेखापरीक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारिकत रूप है। तिमाही/अर्द्ध-वार्षिक वित्तीय परिणामों का पू प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्ज वेबसाइट www.cse-india.com पर उपलब्ध है। उपरोक्त परिणाम भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस) के सिद्धांत और प्रक्रियाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं, जैसाकि कम्पनीज (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के अधीन अधिसूचित किया गया है, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन

विनिर्दिष्ट किया गया है। उपरोक्त अलेखापरीक्षित पृथककृत और समेकित वित्तीय परिणामों का पुनरीक्षण लेखापरीक्षा समिति द्वारा और अनुमोदन कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 13 नवम्बर, 2024 को सम्पन्न उनकी संबंधित बैठक में किया गया है।

करो एवं हिते बोर हस्ता. / तिथि : 13-11-2024 (डीआईएन: 00035916

स्थान : नई दिल्ली दिनांकित : 13-11-2024

स्थान : सिकन्द्राबाद (यू.पी) दिनांक : 13.11.2024

निदेशव

डीआईएन : 07503642